been completed on September 6,2024.

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED Registered Office: FF-3, Plot No-319, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad-201012, Tel. 0120-2657018,

CIN: U51101UP1976PLC004244, E-mail: mohanshramik@gmail.com NOTICE OF THE 48th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohan Shramik Udyog Limited (the 'Company') will be held on Monday, September 30, 2024 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 48th AGM, in due compliance of the various MCA Circulars latest being 09/2023 dated September 25, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered

with the Company. The dispatch of the Notice of the AGM through emails has

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 48th Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2024), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Friday, September 27, 2024 (9:00 a.m. 1ST) and end on Sunday, September 29, 2024 (5:00 p.m. 1ST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. 1ST on September 29, 2024. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer to the Notice calling the 48th AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with the company by writing at mohanshramik@gmail.com to receive copies of the Annual Report 2023-24 along with the Notice of the 48th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling the 48th AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Saturday, 28th September 2024 to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive). BY Order of the Board of Directors

For Mohan Shramik Udyog Limited

Date: 06.09.2024 Ram Chander Place: Ghaziabad Director

ANKA INDIA LIMITED Regd. Off: 6 Legend Square Sector 33 Gurugram-122004; CIN: L74900HR1994PLC033268; Email id: response@ankaindia.com;

Phone no: 9820069933; 0124-2322570 website: www.ankaindia.com NOTICE OF THE 30" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Members are hereby informed that dispatch of the Notice of the 30" Annual General Meeting

('AGM') of the Company convened for Monday, September 30", 2024, at 04:00 P.M IST through Video Conferencing ('VC') or Other Audio-Visual Means ('OAVM') and the Report and Account for the financial year ended 31" March, 2024 to the Members of the Company has been completed on 06" September, 2024, in conformity with the regulatory requirements. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 30 and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5" May, 2020, 02/2021 dated 13" January, 2021, 02/2022 dated 5" May 2022, 10/2022 dated 28" December, 2022 and 9/2023 dated 25" September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular SEBI Circular No. SEBI/HO/CF D/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7" October, 2023 which also has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode (collectively referred to as Circulars), the Resolutions for consideration at the 30" AGM will be transacted through remote a-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of Centra Depository Services (India) Limited ("CSDL") have been engaged by the Company. Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the

Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 23' September, 2023 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or a-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM as for information purposes only.

Remote a-voting will commence at 27° September, 2024 09:00 A.M. and ends on 29° September 2024 05:00 P.M., when remote a-voting will be blocked by CDSL. Members, who cast their votes by remote a-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once again. Persons who become Members of the Company after sending of the Notice of the AGM but on or

before the cut-off date may write to CDSL at helpdesk, evoting@cdslindia.com or to the Company at response@ankaindia.com requesting for user ID and password for remote a-voting or e-voting during the AGM. Members already registered with CDSL for remote a-voting should however use their existing user ID and password for this purpose.

In case of any query/ grievance, Members may contact Mr. Anu Sharma, Company Secretary at 6 Legend Square Sector 33 Gurugram-122004, Email ID response@ankaindia.com:

The Annual Report including the AGM notice, is available on the Company's website www.ankaindia.com and available for inspection by the members at the Registered & Corporate Office of the Company during business hours on all working days (Except Saturdays and Sundays) between 9:00 A.M. to 5:30 P.M., till the conclusion of the AGM. A copy of the Notice is also available on CDSL's website at www.evotingindia.com.

The result of e-voting shall be announced on or after 30" September, 2024 but not later than 48 Hours from the conclusion of AGM. The e-voting result and the Scrutinizer's repor shall be placed on the Company's website www.ankaindia.com and CDSL's website www.evotingindia.com for the purpose of informing the members, besides being communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 23rd Day of September, 2024 to Saturday 30" day of September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

FOR ANKA INDIA LTD

ANU SHARMA

Company Secretary

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001 Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503HR1985PLC121303

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of Adhbhut Infrastructure Limited ["Company"] that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, 30th September 2024 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001, to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 30th August 2024 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrar & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Saturday, 07th

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 27, 2024 to September **30, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of 39th AGM of the Company.

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 39th Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting

Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 23rd September 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Further, The Company has appointed M/s AASK and Associates LLP (LLPIN- AAD- 2934) to act as the Scrutinizer for conducting the e-voting process/ballot process in a fair and transparent manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results along with Scruitinizer's Report shall be placed on the website of the Company at https://www.adhbhutinfra.in/ and also on the websites of Bombay Stock.

Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

The Notice of AGM and Annual Report 2023-24 is available at company's website at www.adhbhutinfra.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e www.bseindia.com. For the detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section

'Notes' in the Notice of the 39th AGM. Remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and and

in particular, instructions for joining the AGM, the manner of casting vote through Remote E-

For Adhbhut Infrastructure Limited

Anubhav Dham Chairman Cum Managing Director



IDBI Bank Ltd, RAC Nehru Enclave, CC 22, Hotel Conclave Executive, Kalkaji (Opp. Paras Cinema) New Delhi-110019

Borrower: Mr Sunil Kumar Gupta & Mrs Preeti Gupta Flat No-60-D. Pocket-A. Sukhdev Vihar. New Delhi -110025

Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for classification as fraud as per RBI Master Directions on Fraud – Classification and Reporting by Commercial Banks and select FI's dated July 01, 2016 ('Master Directions'), has been initiated and the Show Cause Notice issued by the Bank to the following persons has been returned un-served. Designation **Address** Name

Mr. Sunil Kumar Gupta	Flat No-60-D, Pocket-A, Sukhdev Vihar, New Delhi -110025	Borrower
Mrs. Preeti Gupta	Flat No-60-D, Pocket-A, Sukhdev Vihar, New Delhi -110025	Borrower

The above persons, if they so desire, (a) may immediately collect the copy of the Show Cause Notice either in person or by duly authorized person by producing proof of identity, from the undersigned at the address as given above. (b) may Show Cause within 10 days from the date of publication of this notice as to why their name should not be classified as fraud in terms of Master Directions and subsequent actions

(Bharat Bhushan Premi) Date: 06.09.2024 (Centre Head, DGM) Place: New Delhi

IDBI BANK SHOW CAUSE NOTICE IDBI Bank Ltd. RAC Nehru Enclave, CC 22, Hotel Conclave Executive, Kalkaji

(Opp. Paras Cinema) New Delhi-110019 Borrower: Mr Saurabh Mittal & Mrs Prachi Agarwal Flat No. 18193. ATS Advantage, Ahinsa Khand -1,

Indirapuram, Ghaziabad - 201010, U.P.

Notice is hereby given to the persons mentioned below that the proceedings for classification as fraud as per RBI Master Directions on Fraud - Classification and Reporting by Commercial Banks and select FI's dated July 01, 2016 ('Master Directions'), has been initiated and the Show Cause Notice issued by the Bank to the following persons has

Name	Address	Designation
Mr Saurabh Mittal	Flat No 18193, ATS Advantage Ahinsa Khand - 1, Indirapuram Ghaziabad -201010 U.P.	Borrower
Mrs Prachi Agarwal	Flat No 18193, ATS Advantage Ahinsa Khand - 1, Indirapuram Ghaziabad- 201010 U.P.	Borrower

The above persons, if they so desire, (a) may immediately collect the copy of the Show Cause Notice either in person or by duly authorized person by producing proof of identity, from the undersigned at the address as given above. (b) may Show Cause within 10 days from the date of publication of this notice as to why their name should not be classified as fraud in terms of Master Directions and subsequent actions

be taken. (Bharat Bhushan Premi) Date: 06.09.2024 (Centre Head, DGM) Place: New Delhi



KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED CIN: L72411DL1990PLC042502

Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi - 110 017 | Tel: 011-40590944 **E-Mail:** info@kothariyeast.in, **Website:** www.kothariyeast.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Member's of Company will be held on Monday, the 30th day of September, 2024 at 11:30 A.M through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Notice is available on the website of the Company at https://www.kothariyeast.in/investor-files/annual-report and of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. All the members are informed that:

1. The ordinary and the special Business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means. 2. Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: 6th September, 2024.

3. Date and time of commencement of e-voting: 27th September, 2024 (Friday) from 9:00 a.m and ending on 29th September, 2024 (Sunday) at 5.00 p.m.

. Cut-off Date: 24th September, 2024. 5. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. The detailed procedure for obtaining User ID & Password is also provided in the Notice of the AGM.

Member may note that: a) the remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2024 b) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: c) the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the

For any queries, the members may contact for any grievance at toll free no.: 022 - 4886 7000 or write to the Company at info@kothariyeast.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat marg, Lower parel, Mumbai-400013, at the designated email evoting@nsdl.com.

For Kothari Fermentation & Biochem Ltd.

Pramod Kumar Kothari

Chairman and Managing Director

Place: New Delhi Date: 06.09.2024

HIND SECURITIES & CREDITS LIMITED

Registered & Corporate Office: D-8, Part B, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 CIN: U748990L1993PLC056702; Phone No: 91-9899425575.

E-Mail Address: supersecurities1993@gmail.com; Website: www.supersecurities.in

INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 31" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING Notice is hereby given that the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Hind

Securities & Credits Limited will be held on Monday, September 30, at 10:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA. the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on September 6, 2024 The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to registe

their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Nivis Corpserve LLP, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company or by sending a request to the Company via email at supersecurities 1993@gamil.com (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 31" AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.supersecurities.in). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 31" AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Monday, September 23, 2024. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM.

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Friday, September 27, 2024 at 9:00 a.m. and will remain open upto Sunday, September 29, 2024 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM. The Company has appointed Mr. Chetan Gupta (Membership No. FCS-6496 & CP No. 7077)

Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and

The detailed procedure/instructions for remote e-voting, attending AGM and e-voting during AGM

are contained in the Notice of 31" AGM. The remote e-voting facility is available to the Members to cast their votes at the e-voting website

of NSDL; www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Ms. Priyanka Sethi, Company

Secretary, e-mail address: supersecurities 1993@gmail.com, Address: D-8, Part B, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041, Contact No.:91-9899425575/7011493399

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM, Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at info@nivis.co.in with a copy marked to the Company at alongwith his / her / its relevant particulars. i.e. DP ID & Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting. If shareholder is individual shareholder and hold shares in demat mode he/she can generate password as explained in e-voting instruction.

Since the 31" AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act, the Register of

Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 30" AGM. By order of the Board of Directors For Hind Securities & Credits Limited

Date: September 6, 2024

(Priyanka Sethi) Date: 6th September, 2024 Company Secretary | Place: Delhi Membership No.: A32756

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of Public Company into a Private Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs

Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies

Act, 2013, and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of M/s Thomson Press (India) Limited having its Registered

Office at F-26, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110001, Applicant

Notice is hereby given to the general public that the Company is

intending to make an application to the Central Government under Section 14 of Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the Special Resolution passed at the Annual General Meeting held on 23rd August, 2024 to enable the Company to give effect to such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change / status of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Concerned Regional Director, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: For and on behalf of the Applicant

Alok Shukla Company Secretary

Date: 6.9.2024 Place: Delhi

F-26, First Floor, Connaught Place, New Delhi-110001, India



TITAN SECURITIES LIMITED

CIN: L67190DL1993PLC052050 Regd. Office:- A-2/3, IIIPO FLOOR LUSA TOWER, AZADPUR, DELHI-110033 Phone No. 011-27674181 | Fax No. +91-11-47619811 Email ID: titan.securities@yahoo.com

NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING **FACILITY AND BOOK CLOSURE**

will be held on Monday, 30th September, 2024 at 5:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, applicable Rules and Regulations read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"). without the physical presence of the Members at a common venue. The Venue of AGM shall be deemed to be Registered Office of Company. In terms of aforesaid circulars of MCA and SEBI, Notice of the AGM along

with the Annual Report 2023-24 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with Company/Depository Participants(s)/Registrar & Share Transfer Agent. The dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report through e-mail has been completed on September 06, 2024. These documents are available on the website of company at www.titansecuritieslimited.com and also at website of BSE Ltd .e. www.bseindia.com. The documents relating to item of business to be transacted at AGM shall be available for inspection by the members before or during the AGM.

regulations, members are provided facility of remote e-voting through electronic means and may cast vote on the resolutions of AGM through remote e voting using CDSL system through its website www.evotingindia.com. The remote e-Voting shall commence on Thursday, 26th September, 2024 at 10:00 A.M. and shall end on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 P.M. The e voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 23rd September, 2024. Any person, who becomes Member of the Company before the cut-off date, may give relevant information about acquiring shares to obtain the login ID and password by sending a request at beetalrta@gmail.com As the AGM is held through VC/OAVM, the members who were eligible and have not cast their vote earlier shall be entitled to vote during the AGM. Members who have already cast vote shall be entitled to attend the AGM but not entitle to vote again on the Resolutions of AGM. The detailed instructions for remote e voting and e voting at AGM have been given in the notice of AGM.

("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mil Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

Services Private Limited at beetalrta@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 24.09.2024 (Tuesday) to 30.09.2024 (Monday) (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Titan Securities Limited Akansha Sharma

Place: Delhi Date: 03/09/2024

(Company Secretary & Compliance Officer)

METAL BOX INDIA LIMITED CIN: U14106DL1933PLC102722

Regd. Address: 4, Scindia House, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 Notice of 86th Annual-General Meeting (AGM), E-Voting and Book Closure

Means ("OAVM") to transact the business as set out in the notice of the AGM. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") inter-alia vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8.4.2020 and 17/2020 dated 13.4.2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated 5.5.2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated 28.12.2022 and General Circular No. 9/2023 dated 25.9.2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted the holding of the annual general meeting through Video Conferencing ("VC") or through other audiovisual means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and MCA Circulars The proceedings of the AGM deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 will be available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") and e-voting facility during the AGM to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM. If your email ID is already registered with the Company / Depository Participant, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case you have not registered/updated your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions to register/update your email-id for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

Physical Send a request to the Company at mbildell2024@gmail.com providing Folio No. Holding Name of Shareholder alongwith scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of PAN card and Aadhaar for registering/updating email address.

Demat Please contact your Depository Participant (DP) and register/update your email **Holding** address as per the process advised by your DP.

The Annual Report for FY 2023-24 and Notice of 86th AGM of the Company will be sent to all the share holders at their registered email addresses in accordance with provisions of Companies Act 2013. Process of Registration of Email address and other details: i) For Temporary Registration:

and in consequence the notice could not be serviced may temporarily get their email address registered with the Company through the link: mbildell2024@gmail.com. Email register and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the shareholder would receive soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for the AGM from NSDL. In case of any queries relating to the registration of E-mail address, shareholder may write to mbildell2024@gmail.com & for e-voting related queries you may write to NSDL at

It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail addresses: in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the

procedure prescribed by the Depository Participant. in respect of physical holding with Company i.e. mbildell2024@gmail.com by sending a request in the prescribed form.

Shareholders will be able to attend the meeting through VC/OAVM by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVEN for the meeting. The facility to join the meeting shall be kept open 15 minutes before the scheduled time of commencement of the meeting. Shareholders are requested to join the meeting by following the procedure given in

the AGM Notice. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (remote e-voting"). All the Members are hereby informed that: i)The business, as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM; (ii) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM; (iii) The remote e-voting shall commence on Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M.) and end on Sunday, 29th September, 2024 (5:00 P.M.); (iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting system at the AGM shall be Monday, 23rd September, 2024; (v) Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or mbildell2024@gmail.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote; (vi) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 P.M. on 29th September, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting electronically will be made available during the AGM; c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM; (vii) The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of the Annual General Meeting; (viii) In case of queries relating to remote e-voting/e-voting/joining of meeting through VC, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-1020-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Ms. Richa Rastogi at info@nivis.co.in or write to the Company at mbildell2024@gmail.com.

For Metal Box India Limited

CLIX HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, 5th Floor, Govind Lal Sikka Marg, Rajendra Place, New Delhi-110008

POSSESSION NOTICE (Appendix IV) Rule 8(1)

hereas the Authorized officer of **CLIX HOUSING FINANCE LIMITED** (Clix), a Housing Finance Bank

company under the National Housing Bank Act., having its registered office Aggarwal Corporate Tower Plot No. 23, 5th Floor, Govind Lal Sikka Marg, Rajendra Place, New Delhi- 110008, under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 OF 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice to the following borrowers and co-borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days rom the date of receipt of the said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on as per under mentioned Date. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "CLIX" and interest other charges thereon. The attention of the Borrower is invited to provisions of sub-section (8) of ection 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. Name & Address Of Borrower/Co-Borrower : 1. Kshitiz Anand Gauttam S/O Ramesh Chand

Gauttam, 2. Kusum Devi W/O Ramesh Chand, 3. Ramesh Chandra S/O Moti Lal, 4. Vishram Singh Gurjar (Guarantor) S/O Radha Kishan Gurjar. All R/O At - Ab-237, Mandir Marg, Near Gyan ihar Circle, Nirman Nagar, Jaipur, Rajasthan 302019. **Sr. No. 1 Also At -** M/S Kshitiz Gautam/ Production Ab-237 Mandir Marg, Nirman Nagar Jaipur, Rajasthan-302019, **Also At:-** Plot No-93 Subhan Vihar Iv, Village Bindayaka, Sirsa Road, Jaipur, Rajasthan-302012. **Sr. No 3 Also At -** Sitla Mata Road, Rajiv Colony, Ward No-1, Gangapur Swaima Dhopur, Rajasthan-322201, Sr. No 4 Also At - Plot No. 97, Subham Vihar, Village Bindayaka, Sirsi Jhotwara, Jaipur, Rajasthan-302012. Demand Notice Dated: 19.06.2024, Date of Possession: 03.09.2024

Amount of Demand Notice: Rs. 21.32.185.42/- as on 12-lune-2024

VILLAGE BINDAYAKÁ, SIRSI ROAD, DISTRICT JAIPUR, RAJASTHAN STATE, WHOSE TOTAL AREA IS 88.88 SQUARE YARDS LE. 74.31 SQUARE METERS AND THE SAID PLOT IS CURRENTLY CONSTRUCTED. WHOSE COVERED AREA IS 800 SQUARE FEET RCC. **Authorised Officer, CLIX HOUSING FINANCE LIMITED** Date: 03.09.2024, Place: Jaipur

Details of Property: ALL THAT PIECE AND PARCEL A RESIDENTIAL PLOT NUMBER 93. SHUBHAM VIHAR-IV.

SMC Credits Ltd.

24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi - 110060 CIN: L65910DL1992PLC049566

Email id: smccorp011@gmail.com. Ph: 011-45012880, Website: www.smccredits.com NOTICE OF 32[™] ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') AND INFORMATION ON E-VOTING

The AGM of the Members of the Company will be held on Monday, the 30th September, 2024 at 10:00 A.M. at 24, Ashoka Chambers, 5-B Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 [Act') and the Rules made there under and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securitas and Exchange Board of India "SEBI" to transact the businesses set forth in the Notice of AGM.

website www.smccredits.com and Notice will also be available on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic voting system ('e-Voting'). The facility

2. The Notice of the AGM and Annual Report have been displayed on the Company's

for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM for members who have not cast their vote through e-voting. Members are requested to follow the instructions comprising manner of e-Voting which have been given in detail in the Notice of AGM. Information and instructions including the details of user id and password relating to

A. Date and time of commencement of e-Voting: 27th September, 2024 (9:00 am.) B. Date and time of end of e-Voting: 29° September, 2024 [5:00 p.m.] The e-Voting shall not be allowed beyond 29" September, 2024 [5:00 p.m.]

Voting have been sent to the members through email.

The details of the e-Voting are as under:

off date i.e. Monday, 23" September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of e-Voting as well as voting at the meeting. A person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the

A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as the cut-

detailed procedure as provided in the Notice of AGM which is available on its website of Company, Stock Exchanges and NSDL A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast the vote by e-Voting shall be able

to exercise their right to vote at the meeting. The members who have cast their vote by e-Voting may attend the AGM but shall not be entitle to cast vote again. 9. In case of any Query and/or grievance with respect of e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and user manual for the shareholders available at

Download section of www.evoting.nsdi.com or contact NSDL at following toll free no. 1800-

222-990 or write at www.evotingindia.com The results of e-voting will be placed by the Company on its website www.smccredits.com within 2 working days of the conclusion of AGM and also be submitted with the stock

Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday 24" September, 2024 to Monday, 30" September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

For SMC Credits Limited

Date: 6" September, 2024

Registered Office of the Company.

Rajesh Goenka Whole Time Director & CFO

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI -110017 (CIN: L74110DL1995PLC069787), E mail: cs@saicapital.co.in, Ph.: 011-40234681, Website: www.saicapital.co.in

NOTICE OF THE 29™ ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

The 29" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30" September, 2024 at 12:30 P.M. I.S.T. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 29" AGM, as per the provisions of the Companies Act, 2013("the Act") and Rules framed, thereunder, read with Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated 5" May, 2020, 28" December, 2022, 25" September, 2023, respectively and other Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The deemed venue for the 29" AGM shall be the

. Electronic copy of the Notice of 29" AGM and the Annual Report for the financial year ended 31" March, 2024 have been sent by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) / ("Depository") Detailed instructions for joining the 29th AGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 29" AGM are provided in the Notice of 29" AGM. Members participating in the 29" AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section

date i.e., 20° September, 2024 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 29" AGM through electronic voting system ("e-voting") of M/s. National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the Members are

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off

the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 29" AGM will be transacted through voting by electronics means;

the remote e-voting shall commence on Friday, 27" September, 2024 (09:00 A.M.

the remote e-voting shall end on Sunday, 29° September, 2024 (05:00 P.M. I.S.T) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 29" AGM, is 20" September, 2024;

any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of 29" AGM by email and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or cs@saicapital.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing

User ID and password can be used to cast vote; Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 29" AGM may participate in the 29" AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 29" AGM; c) Members participating in the 29th AGM and who have not cast their vote through remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 29" AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members, or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the 29"

(vii) the Notice of the 29° AGM and the Annual Report for the financial year ended 31° March, 2024 are available on the website of the Company (www.saicapital.co.in); BSE Limited (www.bseindia.com); and NSDL (www.evoting.nsdl.com);

AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 29" AGM;

(viii) in case of any gueries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.com or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated email address: evoting@nsdl.com or pallavid@nsdl.com or at telephone nos.: 022 - 4886 7000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address cs@saicapital.co.in; and

Members who have not registered/ updated their email address with the Company or Depository Participant(s), may complete the e-mail registration process as detailed

Members holding Shares in physical form by submitting duly filled and signed request letter in Form ISR-1 along with self-attested copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and self-attested copy of any document in support of the address (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) or such other documents as prescribed in the Form ISR-1 by sending an email at cs@saicapital.co.in followed by sending the physical copy of the same through post at the Registered Office of the Company; and

Members holding shares in dematerialized form may update their KYC details including email address with their Depository Participant(s). SEBI vide its Master Circular dated 7" May, 2024 read with Circular dated 10" June, 2024,

as amended from time to time, has mandated furnishing of PAN linked with Aadhaar and KYC details (i.e., postal address with PIN code, e-mail address, mobile number, bank account details etc.). Further, the Company has been sending reminder letters to Members holding shares in physical form from time to time, who have not completed/updated their he above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the

Dr. Niraj Kumar Singh

financialexp.epapr.in

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Company

compliance with Companies Act, 2013 read with applicable rules and

In case of any queries or issues, you may refer the Frequently Asked Questions

Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address with the Company or Registrar and Transfer Agents of the Company, BEETAL Financial & Computer

Notice is hereby given that the 86th AGM of the Company will be held on Monday, 30" September, 2024 at 12:30 p.m. IST through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual

purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

Pursuant to relevant circulars the shareholders who have not registered their email addresses

For Permanent Registration:

V. Krishna

New Delhi

(Chairman) Place: New Delhi

Company and is in compliance with the Act, MCA Circulars and SEBI Circulars. By Order of the Board Sai Capital Limited

Chairman & Managing Director DIN: 00233396

Place: Gurugram DIN: 02656812

Date: 06.09.2024

PLACE: GURUGRAM

DATED: 07.09.2024

Voting or voting during the AGM.

Dated: 06.09.2024

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

लज्जत फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U15202DL2010PTC207779) जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-179, विकासपूरी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110018 में है,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. **क्षेत्र दिल्ली''** से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 12 अगस्त 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपित्त के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिये, लज्जत फूड्स प्राईवेट लिमिटेड

कपिल अगरवाल निदेशक.

DIN: 02616917 पता: 3/19/1, सिविल कोर्ट के पीछे, सीता कुंज, आगरा, उत्तर प्रदेश-282002, भारत

तिथिः ७ सितम्बर, २०२४ स्थानः दिल्ली

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड CIN: L67190DL1993PLC052050 पंजीकृत कार्यालय :- ए-2/3, तृतीय तल, लूसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-110033 फोन नंबर 011-27674181 | फैक्स नंबर +91-11-47619811 ईमेल आईडी: titan.securities@yahoo.com

32# वार्षिक आम बैठक,ई-वोटिंग सुविधा और बुक क्लोजर की सूचना एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी की **32[#] वार्षिक आम बैठक** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित के लागू नियम और विनियम के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओएवीएम") के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर सामान्य और विशेष व्यवसाय को लेन-देन करने की सुविधा, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है **सोमवार**, 30 सितम्बर 2024 बर्जे आयोजित की जाएगी। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

एमसीए और सेबी के उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजने का काम 06 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com और बीएसई लिमिटेड की देबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में लाग नियमों और विनियमों के साथ, सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सर्विधा प्रदान की जाती है और वे अपनी वेबसाइट www.evotingindia.com के माध्यम से सीडीएसएल सिस्टम का उपयोग करके रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से एजीएम के प्रस्तावों पर वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग बहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024 को सबह 10:00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 की शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर, 2024 है। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनीं का सदस्य बन जाता है, शेयर प्राप्त करने के बारे में प्रासंगिक जानकारी दे सकता है और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

चंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है. ऐसे सदस्य जो पात्र थे और जिन्होंने पहले अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने पहले ही मतदान कर दिया है वे एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे लेकिन एजीएम के प्रस्तावों पर फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के विस्तत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्अल के सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को **श्री राकेश** दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना ईमेल पता कंपनी या कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट, बीटल फाइनेशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ beetalrta@gmail.com पर पंजीकृत कर सकते हैं। डीमैंट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक 24.09.2024 (मंगलवार) से 30.09.2024 (सोमवार) (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। कृते टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए

स्थान: दिल्ली दिनांक: 03/09/2024

आकांक्षा शर्मा (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)



बी.एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड (सीआईएन: L74899DL1989PLC036148) पंजीकृत कार्यालय : 409, चौथा तल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025 दूरभाष : 011-40500300, 011-43058345, फैक्स : 011-40500333

ईमेल : info@blkashyap.com; वेबसाइट : www.blkashyap.com

35वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि "कंपनी" की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार साधारण और विशेष व्यवसाय का संचालन किया जा सके। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का ई—मेल के माध्यम से प्रेषण शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट www.blkashyap.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल की ई—वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई—वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि : क) एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान के माध्यम से

किया जा सकता है। ख) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और

रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। ग) इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान करने या एजीएम में मतदान करने की पात्रता

निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 है। घ) एनएसडीएल द्वारा 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद मतदान के लिए

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड.) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार

च) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट—ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

छ) कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का शेयरधारक बनता है और कट—ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ज) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बही 34वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

ई—वोटिंग की प्रक्रिया सदस्यों को भेजी गई एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या एनएसडीएल से टेलीफोन नंबर : 022 – 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सदस्यगण सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग का परिणाम 3 अक्टूबर, 2024 को या इससे पहले घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, जाँचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत किया जाएगा और उन स्टॉक एक्सचेंजों को संसूचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। कृते बी.एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड

हस्ता./-दिनांक : 6 सितंबर, 2024 पुष्पक कुमार

स्थान : नई दिल्ली वीपी तथा कंपनी सचिव

WE BUILD YOUR WORLD

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बेगमपूर खटोला, खांडसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गूडगाँव, अर्जुन नगर, हरियाणा, इण्डिया, 122001

ई—मेल: adhbhut.ind@rediffmail.com । वेबसाइट: www.adhbhutinfra.in Tel.: +91-7048959386 | CIN: L51503HR1985PLC121303

उनतालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक, ई-वोटिंग एवं किताबी बंदीकरण की सूचना एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की उनतालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, सितम्बर 30, 2024 को प्रातः 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बेगमपुर खटोला, खांडसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गुड़गाँव, अर्जुन नगर, हरियाणा - 122001 में एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के

निष्पादन हेतु आयोजित की जानी तय की गई है। कारपारेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रत्तियाँ साथ में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों जिनके नाम सदस्यों का पंजिका में व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर, शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को अंकित होंगे और जिनके ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदारों अथवा कम्पनी के पास अथवा मैसर्स बीटैल फाईनेन्सियल एण्ड कम्पयूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास पंजीकृत को उपरोक्त कागजातों की ईमेलिंग का कार्य शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 91साथ में पिटत प्रासांगिक लागू नियमों, जैसा कि यथासंशोधित एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, साथ सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें सितम्बर 27, 2024 से सितम्बर **30, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल कर)** कम्पनी की उनतालीसवीं एजीएम के उदेश्य हेतू

पुनः कम्पनी सदस्यों को उनतालीसवीं वाषिर्क साधारण बैठक (एजीएम) में इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा ("रिमोट ई—वोटिंग") द्वारा पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्ताओं पर उनके वोटिंग अधिकार के प्रयोग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की स्विधा प्रदान करने के लिए सेन्ट्रल डिपॉटरीज सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (जिसे यहाँ पर "सीडीएलएल " संदर्भित) की सेवायें ली हैं।

भौतिक प्रपत्र अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में शेयर धारित कम्पनी के सदस्यों साथ में जिन व्यक्तियों नाम सदस्यों का पंजिका अथवा डिपॉटारीज द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2024 को अंकित होंगे, रिमोट ई-वोटिंग के साथ

एजीएम में वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे। पुनः, कम्पनी ने मैसर्स एएएसके एण्ड एसोसियेट्स एलएलपी (एलएलपीआईएन-एएडी-2934) को ई—वोटिंग प्रक्रिया/मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जाँचकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के घंटों के भीतर घोषित किया जायेगा। घोषित परिणाम के साथ जाँचकर्त्ता की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.adhbhutinfra.in पर एवं साथ में बम्बई स्टॉक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

एक्सचेन्ज जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं i.e. www.bseindia.com. एजीएम की सूचना एवं 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.adhbhutinfra.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com एवं साथ में बीएसई की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित विस्तारित निर्देशों कि लिए, सदस्य उनतालीसवीं एजीएम की सूचना भाग में 'नोट्स' का संदर्भ लें। बैठक से पहले रिमोट ई–वोटिंग में वोट करने वाले सदस्य बैठक में भौतिक माध्यम द्वारा भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से वोट देने

यदि आपको रिमोट ई—वोटिंग से सम्बन्धित कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखकर अथवा 02223058738 एवं 022-23058542/ 43 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी नोट्स को ध्यान पूर्वक पढ लें और विशेष कर, एजीएम में शामिल होने के अनुदेशों, रिमोट ई—वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान वोटिंग द्वारा वोट देने के तरीका।

> कृते अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनभव धाम

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : 06.09.2024

अध्यक्ष कम प्रबन्ध निदेशक DIN: 02656812 I

SAMMAAN CAPITAL SAMMAAN CAPITAL LIMITED

(Formerly known as Indiabulls Housing Finance Limited) (CIN: L65922DL2005PLC136029)

Registered Office: 5th Floor, Building No. 27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

Tel: 011-43532950, **Fax**: 011-43532947 Website: www.sammaancapital.com, Email: homeloans@sammaancapital.com,

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING AND **INFORMATION ON E-VOTING**

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of Sammaan Capital Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024, at 10:30 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as listed in the Notice dated August 29, 2024, convening the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The proceedings of AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company. Members intending to attend the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in AGM Notice.

In compliance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI, the Notice convening 19th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") has been sent, through electronic mode on September 05, 2024 to those Members whose e-mail address is registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / Depository Participants (DPs).

The aforesaid documents are also available on www.sammaancapital.com, https:// evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations and applicable Circulars, the Company is providing remote e-voting facility to all its Members to exercise their right to vote on the resolutions listed in the AGM Notice and has availed the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") for providing VC facility and e-voting. The detailed procedure for attending the AGM through VC/OAVM and the e-voting is provided in the AGM Notice. The Notice also contains instructions/details with regard to process of obtaining Login credentials for Shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their e-mail address either with the Company or their respective DPs.

Some of the important details regarding the remote e-voting and VC/OAVM facility are provided below

are provided below.	
Link to VC	https://emeetings.kfintech.com/
Link for remote e-voting	For Individual Members:
	https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in
	demat mode with NSDL)
	https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat
	mode with CDSL)
	For non-Individual Members and Members holding
	shares in physical form:
l.	https://evoting.kfintech.com
Cut-off date for	Friday, September 20, 2024. The voting rights of
determining the	Members shall be in proportion to their shares in the
Members entitled to	paid-up equity share capital of the Company, as on
vote through remote	September 20, 2024
e-voting or during the	
AGM	
Commencement of	Tuesday, September 24, 2024 at 10.00 A.M. (IST)
remote e-voting period	
End of remote e-voting	Thursday, September 26, 2024 at 5.00 P.M. (IST)

The remote e-voting shall be disabled by KFintech at 5:00 PM on September 26, 2024 and thereafter the Members shall not be able to vote through remote e-voting. However to enable the Members, who have not cast their vote through remote e-voting, insta-poll (e-voting) facility will also be made available during the AGM. Further, the Members who have cast their votes through remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Manner of registering / updating e-mail address:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their e-mail ID with the Company, are requested to register / update their e-mail address by submitting From ISR-1 (available on the website of the Company at www.sammaancapital.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFinTech at Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address, are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat

In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFin Tech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances relating to e-voting, if any:

Ms. C Shobha Anand, Vice-President KFin Technologies Limited

AGM.

Place : Gurugram

Date: September 06, 2024

Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana India - 500 032 E-mail: evoting@kfintech.com

Toll-free No. 1800 309 4001 (from 09:00 A.M. (IST) to 06:00 P.M. (IST) on all working

Joining the AGM through VC / OAVM Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM, through https:// emeetings.kfintech.com, by using login credentials provided in the email received from the Company/Kfin. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the

> By Order of the Board For Sammaan Capital Limited

Amit Jain Company Secretary

दिनांकः ०७ सितंबर, २०२४

स्थानः दिल्ली

www.readwhere.com

FORM No. 5

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.)

(Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication

(Summons to defendant under Section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

O.A. No. 428 of 2024 Punjab National Bank

Tasty Diary Specialities Ltd. and other Defendant (s)

.....Applicant

To Defendants M/s TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED, Registered Office at D-3. UPSIDC Industrial Area, Jainpur Kanpur Dehat PIN-209311 (Borrower)

Shri Atul Mehra S/o Shri Prem Nandan Mehra R/o 7/76-B, Tilak Nagar. Kanpur.

 Smt. Sonia Mehra, W/o Sri Atul Mehra R/o 7/76-B, Tilak Nagar, Kanpur M/s CIMA FOODS PRIVATE LIMITED- Registered Office at 117/O/64 Plot No. 22, Geeta Nagar, Kanpur Uttar Pradesh.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in four sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 15.10.2024 at 10:30 A.M., failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar Debts Recovery Tribunar, Allahabad

हिंद सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-8, पार्ट बी, उद्योग नगर, मेन रोहतक रोड, दिल्ली-110041 सीआईएनः U74899DL1993PLC056702; फोन नंबरः 91-9899425575; ई—मेल पताः supersecurities1993@gmail.com; वेबसाइटः www.supersecurities.in 31वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई—वोटिंग की सूचना प्रेषण के पूरा होने के बारे में सूचना

रतद्दवारा सूचित किया जाता है कि हिंद सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम बूलाने की सूचना में बताए गए अनुसार सामान्य कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी। एमसीए द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा भेज दी गई है। कंपनी ने 6 सितंबर, 2024 को पूर्वोक्त वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनूरोध है कि वे अपन संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के संबंध में) या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) निविस कॉर्प्सर्व एलएलपी के पास supersecurities1993@gamil.com पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को अनुरोध भेजकर (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) अपने ई—मेल पते पंजीकृत कराएं।

सदस्यों को सचित किया जाता है कि 31वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.supersecurities.in) पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई—वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 व साथ समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक नियमों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को 31वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रदान कर रही है। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि ई—वोटिंग सुविधा के लिए पात्र सदस्यों का पता लगाने

के उद्देश्य से कट-ऑफ तारीख सोमवार, 23 सितंबर, 2024 तय की गई है। केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख को दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 के

सबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम र पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएग के दौरान फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री चेतन गुप्ता (सदस्यता संख्या एफसीएस—6496 और सीपी संख्या ७०७७), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। दरस्थ ई-वोटिंग, एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तत प्रक्रिया / निर्देश

31वीं एजीएम की सचना में निहित हैं। सदस्यों को एनएसडीएल की ई—वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध है या सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पस्तिका देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ई—वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न या शिकायत सूश्री प्रियंका सेठी, कंपनी सचिव, ई—मेल पताः supersecurities1993/gmail.com, पताः डी-8, पार्ट बी, उद्योग नगर, मेन रोहतक रोड, दिल्ली—110041, संपर्क नं.:91—9899425575 / 7011493399 करें। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है, लेकिन कट-ऑफ तिथि

तक उसके पास शेयर हैं, वह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है। ऐस सदस्य रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम बुलाने की सूचना की एक प्रति के लिए आरटीए को पदवि / दपअपेण्बवण्पद पर ई-मेल संचार के माध्यम से मांग भेज सकता है जिसकी एक प्रति कंपनी को चिह्नित की गई हो, जिसमें ई–वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उसकी / उसके संबंधित विवरण जैसे डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर हो। यदि शेयरधारक व्यक्तिगत शेयरधारक है और डीमैट मोड में शेयर रखता है, तो वह ई-वोटिंग निर्देश में चंकि 31वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उक्त परिपत्रों के अनुसार आयोजित की

जाएगी, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, 30वीं

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते हिंद सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स लिमिटेड हस्ता /- (प्रियंका सेठी)

दिनांकः ६ सितंबर, 2024, स्थानः दिल्ली

सदस्यता संख्याः ए३२७७६

वासा डेंटिसिटी लिमिटेड FF Dentalkart (पूर्व में वासा डेंटिसिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः खसरा संख्या ७१४, गांव पी.ओ. छतरपूर नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110074 सीआईएनः U74999DL2016PLC305052

ईमेलः cs@dentalkart.com, वेबसाइटः httpps://www.dentalkart.com/ 8वीं वार्षिक आम बैठक, ई–वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर की सूचना एतददारा सचना दी जाती है कि वासा डेंटिसिटी लिमिटेड जिसे पूर्व में वासा डेंटिसिटी प्राइवेट लिमिटेड

("कंपनी") के नाम से जाना जाता था, की 8वीं वार्षिक आम बैठक("एजीएम"), की सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना,कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम" सचिवीय मानक-2 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक का स्थान कंपनी क

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, जिस अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण आदि शामिल हैं.उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं. जिनके ईमेल पते कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी /डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और एमएएस सर्विसेज लिमिटेड ("रजिस्ट्रार") के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी नोटिसों को ईमेल करने का काम शनिवार, 07 सितंबर, 2024 को परा हो गया है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.dentalkart.com. औ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गर इलेक्टॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एजीएम नोटिस में उल्लिखित संकल्प पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। यदि सदस्य एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्टॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म की सविधा पर अपना वोट डालने में असमर्थ है, तो वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

बोर्ड ने श्री हरीश कुमार, (एफसीएस 9504) प्रोपराइटर, हरीश कुमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (पीसीएस फर्म) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया है। सदस्य निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें: ए. कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखने वाले सदस्य ऐसे रिमोट ई-वोटिंग के

माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। बी. कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह रजिस्ट्रार को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

सी. कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए एजीएम के नोटिस में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

डी. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे संशोधित करने या फिर से वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में निहित हैं।

ई. कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा कट-ऑफ तिथि तक बनाए गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा क लाभ उठाने का हकदार होगा। एफ. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले ही डाल दिया है. वे

एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से वोट करने के पात्र नहीं होंगे। जी. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे। एच. यदि सदस्यों के पास ई-वोटिंग / वीसी के माध्यम से बैठक में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और

ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या investor@masserv.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या श्री शरवन मंगला, रजिस्ट्रार, टी-34, द्वितीय तल, ब्लॉक टी ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 2 रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110020, फोनः +91 11 2638 7283 से संपर्क कर सकते हैं। भाई. प्रस्तावों के परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के बाद घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम

जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.dentalkart.com और रजिस्टार की वेबसाइट https://www.masserv.com पर उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा। कृते वासा डेंटिसिटी लिमिटेड

(पर्व में वासा डेंटिसिटी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) हस्ता /-अखिलेश कंपनी सचिव और आश्रित कैपिटल लिमिटेड

CIN No.: L65923DL1972PLC317436 पंजी. कार्यालयः सलेक्ट सिटीवॉक, ६वी मंजिल, ए-३, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 ई-मेल आईडी : aasaashritcapitallimited@gmail.com, / वेबसाइट : www.aashritcapital.com

असाधारण अःम बेठकी सुचना एतदहारा सुचित किया जाता है कि उक्त एजीएम की सूचना, जो 31 मार्च, 2024 को समान्त वर्ष की वार्षिक रेपोर्ट के साँध मेजी गई है, में उल्लिखित कामकाज को संपादित करने के लिए, कंपनी के सदस्यों की 52वी

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सिलेक्ट सिटी वॉक, 6वी मंजिल, ए-3, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी कंपनी (प्रकंतन और प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 और सेवी (सूचीयन दावित्व और प्रकटन भपेक्षा) विनियम 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के अनुपाल

एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने सदस्यों को सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करोई गई ई-वोटिंग सविधा प्रदान कर रही है। कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाँ से वोटिंग के माध्यम से कामकाज को संपादित कर सकते हैं। सभी शेयरधारकों चाहे वे भौतिक रूप में शेयर रखते हों या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में, के लिए रिमोट

ई—वॉटिंग संविधा शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को शाम 05.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 29 सितम्बर, 2024 को शीम 5.00 बजे समाप्त होगी। वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मेंद्रयूल सीडीएसएल द्वारा प्रदर्षित किया जाएगा। उक्त तारीख और समय के बाद रिभोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तारीख 23 सितंबर 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखें गए लामार्थियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, कंवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही आम

कोई व्यक्ति, जो सचना भेजने के बाद कंपनी के बेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तारीख को श्रेयरपारक रहता है. helpdesk evoting@cdslindia.com/admin@skylinerta.com को अपने फोलियो नंबर / डीपी आईबी और ग्राहक आईबी का उल्लेख करते हुए ई—मेल भेजकर लॉगिन—आईबी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। डालांकि, यदि ऐसे शेयरधारक पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल से पंजीकृत हैं, तो रिमोट ई-वोटिंग के लिए मीजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग

बैठक में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

किया जा सकता है। एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे.

कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी बैठक में भाग लें सकता है, लेकिन उसे बैठक में फिर से वोट देने की जनुमति नहीं दी जाएगी।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.aashritcapital.com और सीडीएसएस की वेबसाइट CDSL www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। यदि ई-वोटिंग के बारे में आपके कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया www.evolingindia.com पर सहायता

खंड के अंतर्गत उपलब्ध अकसर पुछे गए प्रश्न और ई--वॉटिंग मैनुअल देखें या helpdesk.evoling@cdslindia.com पर ईमेल करें या टॉल फ्री नंबर 1800-200-5633 पर या आकांक्षा अग्रवाल, अनुपालन अधिकारी और कम्पनी सक्रिव से www.aashvilcapital.com / 011-40599999 पर संपर्क करें।

दिनांक : 05.09.2024 ख्यान : नई दिल्ली

कृते आश्रित कैपिटल लिमिटेड हरता / आकाशा अग्रवाल अनुपालन अधिकारी और कम्पनी सचिव

MOHAN SHRAMIK UDYOG LIMITED Registered Office: FF-3, Plot No-319, Sector-3, Vasundhara,

Ghaziabad-201012, Tel. 0120-2657018, CIN: U51101UP1976PLC004244, E-mail: mohanshramik@gmail.com

NOTICE OF THE 48th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the members of Mohan Shramik Udyog Limited (the 'Company') will be held on Monday, September 30, 2024 at 12:00 Noon IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice calling 48th AGM, in due compliance of the various MCA Circulars latest being 09/2023 dated September 25, 2023. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company. The dispatch of the Notice of the AGM through emails has

been completed on September 6,2024. As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administrative) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice calling 48th Annual General Meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 23, 2024), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting'). The remote e-voting shall commence on Friday, September 27, 2024 (9:00 a.m. 1ST) and end on Sunday, September 29, 2024 (5:00 p.m. 1ST). The remote e-voting module shall be disabled by CDS beyond 5:00 p.m. 1ST on September 29, 2024. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM. The Members may kindly refer to the Notice calling the 48th AGM for detailed information. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with the company by writing at mohanshramik@gmail.com to receive copies of the Annual Report 2023-24 along with the Notice of the 48th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC. The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact the helpline number given in the Notice calling the 48th AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from Saturday, 28th September 2024 to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive).

BY Order of the Board of Directors For Mohan Shramik Udyog Limited

Date: 06.09.2024 Place: Ghaziabad Ram Chander Director

साई कैपिटल लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जी-25, ग्राउंड फ्लोर, रसविलास सालकॉन डी-1, साकेत जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली -110017 (सीआईएन : L74110DL1995PLC069787), ईमेल : cs@saicapital.co.in, फोन : 011-40234681, वेबसाइट : www.saicapital.co.in

29वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि

कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे आईएसटी पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार साधारण और विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की जानी है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, क्रमशः 5 मई, 2020, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र संख्या 20/2020, 10/2022 और 09/2023 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी –पीओडी – 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 के साथ पठित, के अनुपालन में, आयोजित की जायेगी। 29वीं एजीएम के लिए मानित स्थान

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। 29वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) / ("डिपॉजिटरी") के साथ पंजीकृत हैं। 29वीं एजीएम में शामिल होने और 29वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भागीदारी करने या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि के बारे में विस्तृत अनुदेश, 29वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103

के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। कट-ऑफ तिथि अर्थात 20 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("ई—वोटिंग") के माध्यम से 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय पर इलेक्टॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि : (1) 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

मतदान के माध्यम से किए जाएंगे; (2) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (09:00 बजे प्रातः I.S.T) से शुरू होगी। (3) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 29 सितंबर, 2024 (05:00 बजे सायं **I.S.T**) को समाप्त होगी। (4) 29 एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता

निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20 सितंबर, 2024 है; (5) कोई भी व्यक्ति जो ईमेल द्वारा 29 एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com तथा cs@saicapital.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ

(6) सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि : क) मतदान के लिए उपर्युक्त दिनांक और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने 29वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे 29वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होगे; ग) 29वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, तथा जिन्होंने रिमोट ई—वीटिंग के माध्यम अपना वोट नहीं डाला है, वे सदस्य 29वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे; और घ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है,

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा; (7) 29वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.saicapital.co.in) पर य बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) परय

(a) किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई – 400013 से पदनामित ईमेल पते : evoting@nsdl.com या pallavid@nsdl.com या दूरभाष सख्या : 022 - 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान

(9) जिन सदस्यों ने कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ईमेल पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर

क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य फॉर्म रैन्-1 में विधिवत भरे और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके; और पते के समर्थन में निम्न में से किसी भी प्रलेख की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) या फॉर्म ISR-1 में निर्धारित ऐसे अन्य प्रलेखों को cs@saicapital.co.in पर ईमेल भेजकर और उसके बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में

डाक के माध्यम से उसकी भौतिक प्रति भेजकर; और ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ ईमेल पते सहित

को अनुस्मारक पत्र भेजती रही है, जिन्होंने अपना केवाईसी पूरा / अपडेट नहीं किया है। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह

बोर्ड के आदेशानुसार साई कैपिटल लिमिटेड डॉ. नीरज कुमार सिंह अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00233396

दिनांक : 06.09.2024

अनुपालन अधिकारी स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत है, तो विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा

रिमोट ई—वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में भागीदारी और 29वीं |

और एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है;

भी करेंगे। सदस्यगण कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते cs@saicapital.co.in पर भी

अपने केवाईसी विवरण को अपडेट कर सकते हैं। 4. सेबी ने समय-समय पर संशोधित 10 जून, 2024 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 07 मई, 2024 के अपने मास्टर परिपत्र के माध्यम से, आधार से जुड़े पैन और केवाईसी विवरणों (अर्थात् पिन कोड के साथ डाकीय पता, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि) प्रस्तूत करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी समय-समय पर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन सदस्यों

अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।